#### SCHLOSS BANGALORE LIMITED

(formerly known as Schloss Bangalore Private Limited)

Registered Office: The Leela Palace, Diplomatic Enclave, Africa Avenue, Netaji Nagar New Delhi South Delhi 110023 Tel No. +91 (11) 39331234 Email Id: cs@theleela.com CIN: L55209DL2019PLC347492 Website: www.theleela.com

Ref No. THELEELA/2025-26/031

Date: August 27, 2025

То

Sr. General Manager
Listing Department
Listing Department
Listing Department

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, C-1, Block G
Dalal Street Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400001 Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code- 544408 Symbol- THELEELA ISIN - INE0AQ201015 ISIN - INE0AQ201015

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisement with respect to Sixth Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements, confirming dispatch of notice of Sixth Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Friday, September 19, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means along with Annual Report FY 2024-25, providing details pertaining to the AGM, Annual Report and remote e-voting and voting at the AGM and other relevant information, published in the following newspapers:

- 1. MINT (All India Editions)
- 2. Hindustan (Delhi Edition)

The above information will also be available on the website of the Company at <a href="https://www.theleela.com/AGM-FY2024-25">https://www.theleela.com/AGM-FY2024-25</a>

This is for your information and record.

Thanking you,

#### For Schloss Bangalore Limited

(formerly known as Schloss Bangalore Private Limited)

Jyoti Maheshwari

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Membership No.: A24469

Encl.: As above



### Power ministry's **Akash Tripathi** to lead Seci as MD

he Centre has appointed 1998-batch Madhya Pra-desh cadre IAS officer Akash Tripathi as managing director of Solar Energy Cor-poration of India (Sec). Tripa-thi will hold this position in addition to his current role as the additional secretary in the

A. i. will ... iddition to h... ac additional secs.
Jnion ministry of powe.
The move comes after the Union government sacked former Secci chief Rameshwar Prasad Gupta in May. Secretary to the ministry of new and renewable energy Santosh Kumar Sarangi held the additional charge since then.
The appointment of Akash Tripath, additional secretary, uninistry of power, as managing director, Seci, ministry of new and renewable energy, in the rank and pay of additional secretary, to the government of India by temporarily upgrading the "oadditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporarily upgrading the "oradditional secretary to the government of India by temporary to sect the government of India by temporary to se

ing agency for development of solar wind and hybrid projects and plays a key role in India's energy transition journey as the Centre aims to achieve 500GW non-fossil capacity by 2030. To achieve this, Seci-releases tenders for selection of renewable energy develop-ers for the establishment of projects on a pan-India or state-specific basis.



withdrew the order following the Delhi High Court's stay on the company's debarment. Seci also faces the task of clearing a large backlog of unsigned power purchase and sales agreements. About 30GW of such contracts were pending as of June, Mint reported earlier. For an extended version of the story go to livemint.com

### **Gangwal to trim IndiGo stake**

Planned \$801 million stake sale would take the airline co-founder's holding to less than 5%

ndiGoco-founder and promoter
Rakesh Gangwal plans to sell
shares worth S801 million in the
country's largest airline, according to a term sheet seen by Mint.
Goldman Sachs (India) Securities,
Morgan Stanley India and J.P. Morgan India are arranging the trade.
Under the updated terms, Gangwal
and his Chinkerpoo Family Trust will
sell upto 12.1 million shares—or about
31%—in InterGlobe Aviation Ltd,

sell upto 121 million shares—or about 3.1%—in InterGlobe Aviation Ltd, which runs IndiGo. The offer price of 55,808 reflects a nearly 4% discount to the stock 's closing price of 16,050 on Tuesday on the NSE. After this sale, Gangwal would own 7.1% in Indigo while hisco-promoter and managing director of the airline, Rahul Bhatia, would hold 35,73%. At December 2021-end, Gangwal



Gangwal has steadily pared his holding since 2022, when he stepped do from the board following disputes with co-promoter Rahul Bhatia.

in InterGiobe Aviation.

Gangwal has continuously pared his stake in the airline over the past few years, after a feud between him and Bhatia—the two co-founded the At December 2021-end, Gangwal held 36.6%, and Bhatia owned 37.8% airline in 2006—was laid to rest.

In 2019, Gangwal accused Bhatia of corporate governance lapses. The dispute became public when he wrote to market regulator Sebi, pointing to issues such as related-party transactions and the chairman's

India-Pakistan border clash, as well as

lack of independence.

In 2022, Gangwal resigned from the board of directors of InterGlobe Aviation. In a letter to the board, he said he intended to pare down his then 37% stake over the next five years and asked that no unpublished price-sensitive information be shared with him.

Among the stake sales that he undertook, Gangwal sold 5.85% stake in 121 million shares in Withabout 64% another 5.85% last August, and Synghia share with the startine industry in Hufe John Sylvera-on-year for the John Sylvera-on-year for the John Sylvera-on-year for the John Sylvera-on-year to KS Sylvera-on-year for the John Sylver on-year for the John

### 'IPO exits surging, India is catching up with China on PE returns'

ndia's private equity space, long seen as underperform-ing in actual returns despite ing in actual returns despite matching China on paper gains or unrealised profit, is now proving its mettle, prompting global players like LGT Capital Partners to double down on the market. "Our long-term return from India has been largely on par with those of China. However, distributions have been a bit slower largely because the exit markets took time to open up,"

Peter Lui, principal, LGT Capi-tal Partners, said in an inter-view with *Mint*. "In the last couple of years, the Indian IPO market has become a mean-

market has become a mean-ingful exit avenue, so the pace of distribution has improved." The Switzerland-based firm has ramped up its India expo-sure across its Apac-focused and global funds. The firm has deployed about \$1.7 billion in the country over the past two decades—over \$500 million of which came in just the last 18 months. "We expect a similar trajectory over the next 18 to 24 months," Lui added.

"Given the current geopolitical situation across the world, India is being viewed by investors as a safer bet. This, condinated with strong Global investors and and rising manufacture. In the safe two two sars, Treasury wala added. In the condition of the safe two safers between the world in the past two spaces are supported by the past two spaces. The past two spaces are supported by the past two spaces are supported by the past two spaces. The past two spaces are supported by the past two spaces are supported by the past two spaces. The past two spaces are supported by the past two spaces are supported by the past two spaces are supported by the past two spaces. The past two spaces are supported by the past two spaces are supported by the past two spaces. The past two spaces are supported by the past two spaces are supported by the past two spaces. The past two spaces are supported by the past two spaces are supported by

turing invest-ment led to great-er capital inflows recapital inflows recapital inflows major exit route, speding up distributions wala, partner at Desai & Diwanji, said. IPOs have been a significant driver of exits in India with a steady surge of success - Equity International showed.

see stronger returns as Indian IPOs emerge as a major exit route, Nexus Ventures and Peak XV.

LGT is deploying from its fifth fund, which it plans to close by the year-end. From its Apac strategy, it typically allo-cates 20-25% to India but is increasingly tapping global funds for larger transactions.

funds for larger transactions. "For large transactions like the National Stock Exchange or Multiples" continuation vehicle, excarbinging appliad from multiple pools, in addition to our flagship Asia fund, which is how were able to write sizable cheques," Lui said. Its assets under management exceed S000 billion, with exposure to private markets,

multi-alternatives, diversifica-tion, and sustainable strate-gies. LGT has emerged as an active global investor in India's booming secondary market, booming secondary market, through large deals such as Multiples' \$430-million con-

W.	M.P. PASCHIM KSHETRA VIDY Office of the SE (O&M), Circle, KHANDWA (Address - Anand Nagar, MPSEB Campus, KF 1733-2249315) (CIN: U40109MP20028GC015	IANDWA		
No. SE/08	M/PUR/25-26/NIT/TS-05/2492	Khandwa, Date : 26.08.202		
	NOTICE INVITING TE	NDERS		
Online ter	der is invited for following services as per to	ender spec	ification giver	n below :
TS No.	Particulars	Tender Value (Approx.) (In Cr.)	Last Date of Online Submission of bid	Due Dat of Onlin bid Openin
PUR/25-	Outsourcing of Manpower Required for Miscellaneous Works in the O&M, Circle, Khandwa of MPPKVVCL, Khandwa.		16.09.2025 Up to 15:00 Hrs.	17.09.2 At 15:0 Hrs.
Nagar, Kl http://ww	a-Bid meeting for the above tender shall b handwa on 08.09.2025 at 3.00 pm For fur wmwx.co.in or portal https://www.mp hvam/12/12/02/026	ther inform	ation visit ou ov.in	

### **MAKE YOUR MONDAY MORNING** PI.AYFUI.

Catch the latest section of



to solve a set of intriguing puzzles.





#### **CLASSIFIEDS**

#### **BUSINESS OFFER**

### CARBON BLACK FROM EUROPE

We can offer quality stocks at low prices on a monthly basis as below:

### CARBON BLACK N-220 100 MT

Please contact

**Euro Exim Ltd** Manchester (UK) Fmail:exports@ euroeximitd.co.uk

a Classified ad

Log on to htclassifieds.com

Scan QR code





MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI PUBLIC HEALTH DEPARTMENT SADASHIV KANHOJI PATIL MUN. GEN. HOSPITAL, MALAD (E) MUMBAI - 400097

No. HO/1146/ SKPH DATED 25.08.2025 e-PROCUREMENT QUOTATION NOTICE

spital, Malad (E), Mumbai - 400 09 Details regarding E-Tender notice will be available on website <a href="https://mahatender.gov.in">https://mahatender.gov.in</a> nanmumbai Mahanagamalika

ne Details of the e-Tender Floor with allied Basic Amenities at S. K. Patil Mun. Gen. Hospital, Malad (E)

Date and Time for Pre bid Meeting . - - - - - - Note:

Note:

- Last date payment of Earnest Money Deposit (EMD) online is on before due date and time pre-



#### THE LEELA SCHLOSS BANGALORE LIMITED

NOTICE OF THE SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

- The Notice of Parties Sixth Annual Centra Rate Meeting ("AGM") of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, September 19, 2023 at 11:00 a.m. (817) through Video Conferencing (VC)Other Audio Visual Means (OAVM) facility, to transact the businesses as set out into notice of Stath AGM ("AGM Notice").

  1. In complaince with the applicable provised in the Company is schot AGM ("AGM") Molice").

  1. In complaince with the applicable provised in the Company is a 12:00 a.m. (817) and utes made of the Company is a 12:00 a.m. (817) and utes made of the Company is a 12:00 a.m. (817) and utes made of the Company is a 12:00 and (1817) and utes made of the Company is a 12:00 and (1817) and utes made of the Company is a 12:00 and (1817) and utes made of the Company is a 12:00 and (1817) and utes made of the Company is a 12:00 and (1817) and utes made of the Company is a 12:00 and (1817) and utes made of India ("SEEI) Circular No. SEEI/HOCDE Company is a 14:200 dates April 09, 2020, 17:200 dated April 13, 2020, 2020 dates April 09, 2020, 17:200 dated April 13, 2020, 2020 dates April 13, 2020 d

Members may refer to the detailed procedure and instructions for Remote E-voting and e-voti 
the Meeting, provided as part of the AGM Motice. The Remote E-voting would be available to 
Members during the following periods:

Commencement of Remote E-voting

Monday, September 15, 2025 at 9:00.01, 10.00.01.0

Commencement of Remote E-voting Monday, September 15, 2025 at 9:00 A.M. (IST)

Conclusion of Remote E-voting Thursday, September 18, 2025 at 9:00 A.M. (IST)

Members are requested to note that the Remote E-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m.

(IST) on Thursday, September 18, 2025 and the Sacility shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently, Members who have cast their vote through Remote E-voting prior to the Meeting and the Meeting, Members with have not cast file their vote through Remote E-voting prior to the Meeting, using the same procedure.

A person whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial Owners (in case of demat shareholding) on Friday, September 12, 2025; (Cut-Off Date), shall only be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as e-voling at the Meeting, Rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Members is not not a Member as on the Cut-Off Date). Apperson who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on the Cut-Off Date A person who is not a Member as on t

purposes only. Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of shares held in demat mode by providing DPID-CLID (16-digit DPID+ CLID or 16 digit beneficiary ID). Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to einward\_rise\_Mithelen.com and in respect of shares held in physical mode, by providing, Folio No, Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of the part of

Notice.

Any person becoming a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holding as heart of the Company after the dispatch of AGM Notice and holding shares as on the Cut-Off Date, can access the AGM related documents on the aforementioned websites and may obtain the user ID and password by sending a request to excling@instl.co.in to cast their votes through Remote E-voting or e-voting at the Meeting and following the instructions provided in the AGM Notice.

provided in the AGM Notice. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for She-evoting user manual for Shareholders available at the download section of <a href="www.ev">www.ev</a> or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sukesh Shetty, Assistan

For and on behalf of the Board of Directors of Schloss Bangalore Limited (formerly known as Schloss Bangalore Private Limited)



### Power ministry's **Akash Tripathi** to lead Seci as MD

rituraj.baruah@livemint.com **NEW DELHI** 

he Centre has appointed 1998-batch Madhya Pradesh cadre IAS officer Akash Tripathi as managing director of Solar Energy Corporation of India (Seci). Tripathi will hold this position in addition to his current role as the additional secretary in the Union ministry of power.

The move comes after the Union government sacked former Seci chief Rameshwar Prasad Gupta in May. Secretary to the ministry of new and renewable energy Santosh Kumar Sarangi held the additional charge since then.

The appointments commit $tee\,of\,the\,cabinet\,approved\,the$ appointment of "Akash Tripathi, additional secretary, ministry of power, as managing director, Seci, ministry of new and renewable energy, in the rank and pay of additional sec-

retary to the government of India by temporarily upgrading the post to additional secretary level," a government notification said.

Established in 2011, Seci serves as an implement-

ing agency for development of solar, wind and hybrid projects and plays a key role in India's energy transition journey as the Centre aims to achieve 500GW non-fossil capacity by 2030. To achieve this, Seci releases tenders for selection of renewable energy developers for the establishment of projects on a pan-India or state-specific basis



Akash Tripathi is a 1998-batch MP cadre IAS officer.

Seci has been tasked with tendering 20GW of renewable energy projects a year. The company also has plans to set up 10GW of solar capacity of its own and go public by FY27.

The state-run firm found itself in controversies including the submission of fake bid documents by Reliance Power to Seci for renewable energy tender. On 6 November, Seci

barred Reliance Power and sub-The appointment sidiary Reliance comes after the NU BESS from govt sacked the participating in former Seci chief tenders floated by Rameshwar the state-run firm **Prasad Gupta in** for three years for May allegedly submitting fake docu-

ments, But it later withdrew the order following the Delhi High Court's stay on the company's debarment.

Seci also faces the task of clearing a large backlog of unsigned power purchase and sales agreements. About 30GW of such contracts were pending as of June, Mint reported earlier.

For an extended version of *the story go to* livemint.com

# Gangwal to trim IndiGo stake

Planned \$801 million stake sale would take the airline co-founder's holding to less than 5%

Dipali Banka dipali.banka@livemint.com **NEW DELHI** 

ndiGo co-founder and promoter Rakesh Gangwal plans to sell shares worth \$801 million in the country's largest airline, according to a term sheet seen by Mint. Goldman Sachs (India) Securities, Morgan Stanley India and J.P. Morgan India are arranging the trade.

Under the updated terms, Gangwal and his Chinkerpoo Family Trust will sell up to 12.1 million shares—or about 3.1%—in InterGlobe Aviation Ltd, which runs IndiGo. The offer price of ₹5,808 reflects a nearly 4% discount to the stock's closing price of ₹6,050 on Tuesday on the NSE.

After this sale, Gangwal would own 4.71% in Indigo while his co-promoter and managing director of the airline, Rahul Bhatia, would hold 35.73%.

At December 2021-end, Gangwal held 36.6%, and Bhatia owned 37.8%



Gangwal has steadily pared his holding since 2022, when he stepped down from the board following disputes with co-promoter Rahul Bhatia.

in InterGlobe Aviation.

Gangwal has continuously pared his stake in the airline over the past few years, after a feud between him and Bhatia—the two co-founded the airline in 2006—was laid to rest.

In 2019, Gangwal accused Bhatia of corporate governance lapses. The dispute became public when he wrote to market regulator Sebi, pointing to issues such as relatedparty transactions and the chairman's

lack of independence.

In 2022, Gangwal resigned from the board of directors of InterGlobe Aviation. In a letter to the board, he said he intended to pare down his then 37% stake over the next five

years and asked that no unpublished price-sensitive information be shared with him.

**GANGWAL** and his Among the stake sales Chinkerpoo Family that he undertook, Gang-Trust will sell up to wal sold 5.83% stake in 12.1 million shares in April 2024, another InterGlobe Aviation 5.83% last August, and **INDIGO'S** profit fell 5.7% this May. 20% year-on-year in the June quarter to With about 64% market

share, IndiGo dominates

the airline industry in higher capacity India. Last month, the airline reported a 20% yearon-year decline in its profit to Rs 2,176

crore for the June quarter despite higher capacities. Incidents, including the Pahalgam

terrorist attack and the subsequent

India-Pakistan border clash, as well as the crash involving an Air India flight in June, had hit travel during the key summer break period.

However, revenue during the June

quarter was up 6% year-on-year to Rs 21,543 crore. At the same time, the 16% growth in available seat kilometres (ASK) to 42.3 billion, a measure of flying capacity, far outstripped the

revenue growth. "The June quarter was shaped by significant external challenges that created headwinds for the entire aviation sector,' said Pieter Elbers, chief executive officer of IndiGo in a press release.

"Despite these industry-wide disruptions, we reported a net profit of INR 21,763 million with a net profit margin of around 11% for the quarter ended June 2025," he said.

### 'IPO exits surging, India is catching up with China on PE returns'

Mansi Verma & Priyamvada C.

MUMBAI/BENGALURU

ndia's private equity space, long seen as underperforming in actual returns despite matching China on paper gains or unrealised profit, is now proving its mettle, prompting global players like LGT Capital Partners to double down on the market.

"Our long-term return from India has been largely on par with those of China. However, distributions have been a bit slower largely because the exit markets took time to open up," Peter Lui, principal, LGT Capital Partners, said in an interview with Mint. "In the last couple of years, the Indian IPO market has become a meaningful exit avenue, so the pace of distribution has improved."

The Switzerland-based firm has ramped up its India exposure across its Apac-focused and global funds. The firm has deployed about \$1.7 billion in the country over the past two decades—over \$500 million of which came in just the last 18 months. "We expect a similar trajectory over the next 18 to 24 months," Lui added.

"Given the current geopolitical situation across the world, India is being viewed by investors as a safer bet. This, com-

bined with strong **Global investors** local demand and rising manufacsee stronger turing investreturns as Indian ment led to great-IPOs emerge as a er capital inflows major exit route, global from investors," Natasha Treasurywala, partner at Desai & Diwanji,

said. IPOs have been a significant driver of exits in India with a steady surge of successful offerings in the past two years, Treasurywala added. LGT Capital backed about

nine Indian managers, including Kedaara Capital, ChrysCapital, and VC firms like Nexus Ventures and Peak XV. It raised five

speeding up and is in the prodistributions cess of raising a sixth. The fund is targeting \$1.2 bil-

lion, raising about \$800 million to date, a report by Private Equity International showed.

LGT is deploying from its fifth fund, which it plans to close by the year-end. From its Apac strategy, it typically allocates 20-25% to India but is increasingly tapping global funds for larger transactions.

₹2,176 crore, despite

"For large transactions like the National Stock Exchange or Multiples' continuation Apac funds so far vehicle, we can bring in capital from multiple pools, in addition to our flagship Asia fund, which is how we're able to write sizable cheques," Lui said. Its assets under managetion, and sustainable strategies. LGT has emerged as an active global investor in India's booming secondary market, through large deals such as Multiples' \$430-million continuation vehicle earlier this year and ChrysCapital's \$700million vehicle in 2024.

multi-alternatives, diversifica-

This shift comes as global investors are cutting exposure to managers delivering strong paper gains but lagging on actual distributions.

mansi.verma@livemint.com For an extended version of the story go to livemint.com

# **Credible business insights** at your fingertips Add as a preferred source on Google Set your **Source Preference** Search by name or website mint Mint min livemint.com Mint App www.livemint.com Mint Newspaper

#### EASTERN RAILWAY No.OAH/2/1/Genl. Dated: 22.08.2025. Following E-tender is

invited by Sr. Divisional Engineer/1/ Howrah, Eastern Railway, DRM Building, near Howrah Station, Howrah-711101 from tenderers having experience of similar nature of work and required financial capabilities including those registered with Irrigation/CPWD/ EB/MES or any public sector undertaking for the following work Under Sr.DEN/1/HWH. NIT No. 134\_2025-26; Description of work: Preparation and submission of GAD, structural design and drawing of foundation and superstructure for the Construction of RCC Overhead Reservoir including Geotechnical Investigation works of different structures at Howrah Division: Approx. Cost: Rs. 53,00,000.00 Earnest Money: Rs. 1,06,000.00; Cost of Tender Form (Rs): Nil Completion period: 03 (Three) months. Closing Date & Time of Tender: 08.09.2025 at 14.00 hrs. In case the date of closing mentioned in the Notice Inviting Tender is declared a holiday, bandh/strike on any account, the date of closing tender online will no be changed as the application in the website of IREPS does not permit submission of any offer after closing date and time of the tender However, opening of tender online will be done on the next working date. The details of tender are available at website: www.ireps.gov.in Tenderers are requested to submit their offer online on the above website. Payment of EMD and TDC payment of earnest money deposit [EMD] and tender document cost [TDC] in respect of E. tendering should be accepted through net banking or payment gateway only. No manual offer will be accepted. (HWH-263/2025-26

Tender Notices are also available at Website www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in Follow us at : ■ @EasternRailway





ment exceed \$100 billion, with

exposure to private markets,

PALACES HOTELS RESORTS

### SCHLOSS BANGALORE LIMITED

(formerly known as Schloss Bangalore Private Limited)

Registered Office: The Leela Palace, Diplomatic Enclave, Africa Avenue, Netaji Nagar, New Delhi, South Delhi - 110023 Tel No. +91 (11) 39331234 | Email Id: cs@theleela.com | CIN: L55209DL2019PLC347492 | Website: www.theleela.com

### Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the

Company is scheduled to be held on Friday, September 19, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility, to transact the businesses as set out in the notice of Sixth AGM ("AGM Notice"). In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made

- thereunder, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 09/2024 dated September 19, 2024, read with other related circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and other circulars issued in this regard ("SEBI Circulars") (collectively referred to as "Circulars"), the Annual Report for the financial year 2024-25 ("Annual Report FY25") along with the AGM Notice has been sent through electronic mode on Tuesday, August 26, 2025, to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/Depository(ies). Further, a letter providing a weblink to access the AGM Notice and Annual Report FY25 has also been sent to those Members who have not registered their email address.
- The AGM Notice, the Annual Report FY25 and other related information can be accessed on the website of the Company at <a href="https://www.theleela.com/AGM-FY2024-25">https://www.theleela.com/AGM-FY2024-25</a>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and the National Stock Exchange of India Limited at <a href="https://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and National Securities Depository Limited (NSDL) at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. The relevant documents referred to in the AGM Notice shall be made available for inspection by the Members electronically based on requests received at cs@theleela.com. Additionally, such documents shall be made available for inspection at the registered office of the Company during business hours on all working days except Saturdays and Sundays up to the date of the AGM.
- The Company has availed the services of NSDL for conducting the AGM through VC/OAVM, enabling participation of the Members at the Meeting, providing e-voting facility prior to the Meeting ("Remote E-voting") and at the Meeting in connection with the business to be transacted thereat. The link for Members to attend the Meeting through VC/OAVM will be available in the Members' login where the EVEN of the Company is displayed
- Members may refer to the detailed procedure and instructions for Remote E-voting and e-voting at the Meeting, provided as part of the AGM Notice. The Remote E-voting would be available to the Members during the following periods:

Monday, September 15, 2025 at 9:00 A.M. (IST) Commencement of Remote E-voting Conclusion of Remote E-voting Thursday, September 18, 2025 at 5:00 P.M. (IST)

5. Members are requested to note that the Remote E-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 18, 2025 and the facility shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote through Remote E-voting prior to the Meeting may attend/participate in the Meeting through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again at the Meeting. Members who have not cast their vote through Remote E-voting prior to the Meeting and are present at the Meeting shall be eligible to vote through e-voting system during the Meeting, using the same procedure.

A person whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial Owners (in case of demat shareholding) on Friday, September 12, 2025 ("Cut-Off Date") shall only be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as e-voting at the Meeting. Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Members as on the Cut-off Date. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the AGM Notice for information purposes only

Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of shares held in demat mode by providing DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> and in respect of shares held in physical mode, by providing, Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to einward.ris@kfintech.com.

Instructions on the process of e-voting and joining the virtual Meeting, including the manner in which Members holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail address can cast their vote through Remote E-voting or e-voting at the Meeting, are provided as part of the AGM

9. Any person becoming a Member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holding shares as on the Cut-Off Date, can access the AGM related documents on the aforementioned websites and may obtain the user ID and password by sending a request to <a href="evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> to cast their votes through Remote E-voting or e-voting at the Meeting and following the instructions provided in the AGM Notice.

10. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sukesh Shetty, Assistant Manager, at evoting@nsdl.co.in

For and on behalf of the Board of Directors of Schloss Bangalore Limited (formerly known as Schloss Bangalore Private Limited)

> Jyoti Maheshwari Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai Date: August 26, 2025

### निर्यातक बोले-नए देशों में कारोबारी दायरा बढ़ाकर करेंगे भरपाई, हमारे पास दुनिया में धाक जमाने का उत्साह भरपूर

# शुल्क से संकट में 35 हजार करोड़ का निर्यात

कानपर. प्रमख संवाददाता। बधवार से ट्रंप का टैरिफ लागू होगा, इसके साथ ही यूपी के 35 हजार करोड़ के अमेरिकी निर्यात का ढांचा चरमराने की शुरुआत होगी।कानपुर के लेदर और गारमेंट सेक्टर को इससे सबसे ज्यादा नुकसान की

हालांकि निर्यातक यूरोप के देशों में कारोबार बढ़ा कर इसकी भरपाई की कोशिश शुरू कर चुके हैं। कानपुर समेत यूपी के नजरिए से यह तगड़ा झटका है।यूपी के साढ़े 35 हजार तो कानपुर के ढाई हजार करोड के अमेरिकी कारोबार पर संकट मंडरा रहा है। हैरान करने वाले ट्रंप के इस निर्णय ने निर्यातकों को बड़ा सदमा दिया है। अमेरिकी बाजार के जरिए कनपुरिया उत्पाद बीते 40 साल से धाक जमाए थे। लेदर, गारमेंट, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक समेत तमाम सेक्टरों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। निर्यातक चिंतित तो हैं, पर हुनर और जज्बे के बलबूते दुनिया में धाक जमाने का उत्साह

### यूपी नई निर्यात नीति लाने की कर रहा तैयारी

इसके पूरे देश के साथ–साथ यूपी के निर्यात पर पड़ने वाले असर से निंपटने के लिए भी रणनींति बन रही है। यूपी अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग देशों के बाजार में अपनी पहुंच और बढ़ाएगा। इसी के मद्देनजर यूपी सरकार अपनी नई निर्यात नीति भी लाने जा रही है। नई वैश्विक चनौतियों के मद्देनजर उससे निपटने की रणनीति भी इसमें होगी। लैटिन अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया पर नजर है। उत्तर प्रदेश से पिछले साल अप्रैल से इस साल मार्च तक १५१३७० .८७ करोड रुपये का निर्यात किया गया।

### तीन-चार माह निर्यातकों के लिए चुनौतीपर्ण

भारतीय निर्यात महासंघ (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि 50 फीसदी टैरिफ से कारोबारी ढांचा चरमरा जाएगा। यपी व कानपुर के लिहाज से यह बेहद कठिन स्थिति है। १९ फीसदी कारोबार यूपी व 25 फीसदी कारोबार कानपुर का अमेरिका से होता आया है। तीन-चार माह बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। लेदर, इंजीनियरिंग समेत सभी सेक्टरों के लिए

### अब आगे यह करना होगा

- अर्जेंटीना, ब्राजील समेत साउथ अमेरिका के 12 देशों में कारोबार बढाना
- मैक्सिको, स्वीडन, स्पेन, इजिप्ट में निर्यात बढ़ा, इसका भरपूर लाभ उठाना
- ऑस्ट्रिया, बेल्जियम समेत 15 यूरोपियन देशों में डिमांड के हिसाब से कारोबार लंबे समय से संपर्क में सडान, केन्या
- रूसी कारोबारियों की बढ़ती दिलचस्पी को अवसर के तौर पर करना होगा

समेत कई अफ्रीकन देशों में सक्रियता

### बढ़े हुए शुल्क का राज्य के कारोबार पर असर

**३२** अरब वाले देश के चमड़ा कारोबार पर बड़ा संकट

हजार ५०० करोड़ रूपये का कानपुर से व्यापार भी फंसा

साल पुराने व्यापारिक रिश्तों के खत्म होने का डर

हजार ५४५ करोड़ के उत्तर प्रदेश के निर्यात को झटका

सौ करोड़ रूपये के लेदर उत्पाद कानपुर से भेजे जाते हैं

सात हजार करोड़ का कारोबार मुरादाबाद से होता है

### अमेरिकी खरीदार दाखिल कर रहे चैप्टर-11

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अमेरिका से आई एक खबर के मृताबिक बडी संख्या में अमेरिकी कंपनियों ने चैप्टर-11 फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।चैप्टर-11 के अंतर्गत अमेरिका में कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया से गुजरती हैं।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की प्रशासनिक समिति के सदस्य मरादाबाद के निर्यातक मो.सलमान आजम ने बताया कि चैप्टर-11 फाइल करने की प्रक्रिया से गुजर रही अमेरिका की कई कंपनियों ने वहां मंदी जैसे हालात पैदा होने और भारतीय उत्पादों पर ट्रंप का बढा टैरिफ लागु हो जाने का हवाला देकर आयातित माल छुड़ाकर इसका भुगतान चुकाने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।

क्या है चैप्टर-11: अमेरिका में चैप्टर-11 फाइल दिवालिएपन से जुड़ी प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां वित्तीय संकट से उबरने को अपने कारोबार का पुर्नगठन करती हैं। इस प्रक्रिया के चलते निर्यातकों को एक हजार करोड़ से अधिक का निर्यात रुकने का अंदेशा पैदा हो गया है।

## दावा:प्रधानमंत्रीमोदीनेट्रंपकीचार फोन कॉल्स का नहीं दिया जवाब

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते चार बार पीएम मोदी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। जर्मनी की मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को ये दावा किया गया।

इस रिपोर्ट में सटीक तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस दिन ये कॉल किए गए थे। भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद का विश्लेषण करने वाली फ्रैंकफर्टर अलगेमाइन जितुंग जर्मन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार को लेकर ट्रंप के विवाद, शिकायतें, धमिकयां, दबाव भारत में काम नहीं कर रहा, जिससे वह बेचैन हैं। अन्य देश ट्रंप के दबाव में आ चुके हैं। ट्रंप अब तक टैरिफ विवाद में अपने सभी विरोधियों को हरा चुके हैं, लेकिन भारत के मामले में उनकी रणनीति उतनी कारगर साबित

### रूस से तेल खरीदने का भी जिक्र

रिपोर्ट में भारत के रूस से तेल खरीदने, ट्रंप द्वारा कृषि व्यवसाय के लिए भारत पर दबाव बनाने का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि वियतनाम के साथ समझौता होने से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा कर दी जबकि वास्तविक समझौता घोषणा से दूर था। जबिक पीएम मोदी इस तरह के मीडियाँ के इस्तेमाल के इच्छुक नहीं है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान के समय भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मृत कहा था।

नहीं हो रही। मीडिया रिपोर्ट के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। अभी तक इस मामले में अमेरिका या भारतीय अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

# कारोबारियों को एक हजार करोड़ सालाना के नुकसान की आशंका

### 🌲 दिल्ली

**नई दिल्ली।** अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लाग् कर दिए जाने से दिल्ली में भी कारोबार प्रभावित होगा।

इसका असर इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, आभूषण, रत्न, रेडीमेड गारमेंट समेत कई अन्य सेक्टर पर पड़ेगा।व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के मुताबिक अमेरिका में टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण दिल्ली के व्यापार को तकरीबन एक हजार करोड़ सालाना का नुकसान होने की आशंका है।

रेडीमेड कपडों की कंपनी के संचालक राजेश बंसल ने बताया कि उनकी कंपनी से रेडीमेड गारमेंट

🌄 गाजियाबाद

तीन हजार इकाइयों पर पड़ेगा असर

हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात

करने वाली तीन हजार से अधिक इकाइयां हैं। सबसे

देशों में होता है। लोहे और इस्पात की वस्तु जैसे तार,

निर्यात होता है। इसके अलावा मशीनरी, बेस मेटल्स

मशीनरी एंड मैकेनिकल, चीनी उत्पाद, गारमेंट आदि

🔩 🛮 फरीदाबाद

फरीदाबाद । कपड़ा क्षेत्र के उद्यमी बांग्लादेश में यूनिट

नए बाजारों की तलाश में हैं। शहर में करीब 30 हजार

लगाने की तैयारी में हैं। ऑटोमोबाइल्स सेक्टर के उद्यमी भी

छोटी–बडी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें से गारमेंट, वाहनों

के पुर्जे, मेडिकल, फर्नीचर बनाने की इकाइयां अधिक हैं।

अर्केले गारमेंट सेक्टर से जुड़ी करीब 200 यूनिट हैं।

फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व प्रधान बीआर

भाटिया ने कहा कि टैरिफ की वजह से हम बांग्लादेश में

किसी निर्माता के साथ करार करने की तैयारी में हैं। देश

के अंदर उत्पादन कर निर्यात करना घाटे का सौदा है।

उद्यमी विकल्प की तलाश में जुटे

वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

अधिक इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात दुनियाभर के

जाली, स्क्रू, बोल्ट, नट, स्प्रिंग, पत्ते, स्टोव, पाइप आदि का

एल्यूमीनियम, टैक्सटाइल, फार्मास्युटिकल उत्पाद, बॉयलर,

**गाजियाबाद।** गाजियाबाद जिले में करीब दो हजार निर्यातक

लेकिन जब से अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढाए जाने की घोषणा की गई है, तब से ऑर्डर मिलने

भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी और अब 50 फीसदी टैरिफ लागू करने की

अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अमेरिका के कारोबारी असमंजस में

बंद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले हैं कि अगर वे ऑर्डर देंगे तो माल अमेरिका में पहुंचते-पहुंचते कहीं फिर से टैरिफ में बदलाव न हो जाए। उनका कहना है कि अमेरिका के आयातक अब भारत से माल खरीदने से बच रहे हैं।

### 🐧 नोएडा

### कई खरीदारों ने ऑर्डर निरस्त किए

नोएडा। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वार ने नोएडा के निर्यातकों की परेशानी बढ़ा दी है। इस लड़ाई में उन्हें अपने कारोबार के चौपट होने का भय सता है। जिले में करीब पांच हजार से अधिक निर्यातक हैं जिसमें सबसे बड़ी संख्या रेडिमेड गारमेंटस से जुड़े निर्यातकों की है। इसके अलावा ऑटो पाटर्स, लैदर और हैंडी क्राफ्ट में भी बड़ा निर्यात होता है जिससे पांच हजार से अधिक निर्यातक हैं। इनका तीस हजार करोड़ से अधिक का कारोबार इस फैसले से प्रभावित होगा। उनका कहना है कि काफी खरीददारों ने उनके ऑर्डरों को होल्ड पर डाल दिया है।

### 🧰 गुरुग्राम

### औद्योगिक इकाइयों-रोजगार पर संकट

गुरुग्राम । अमेरिका ने भारतीय कपडा और रेडीमेड वस्त्रों पर भारी टैरिफ लगाने से लाखों नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। उद्यमियों का कहना है कि कई इकाइयां बंद हो जाएंगी। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों को कारोबार जारी रखने के लिए 20 प्रतिशत तक भारी छूट देने पर मजबूर कर रहा है, जो टिकाऊ नहीं है। गुरुग्राम और उसके आसपास स्थित कई कपडा निर्यात इकाइयों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा पहले से ही काफी कड़ी है। ऐसे में 50 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ उनके लिए बड़ा झटका है।

## मखाना पर ज्यादा असर, ₹250 करोड़ का निर्यात होगा प्रभावित

### 💓 बिहार

**पटना।** बिहार से अमेरिका को किया जाने वाला सालाना करीब 250 करोड़ रुपये का निर्यात प्रभावित होगा।

मखाना, लीची, हल्दी, जर्दालु आम, मधुबनी पेटिंग, मंजूषा कला, हस्तकला, कतरनी, हल्दी, सिल्क, हैंडलूम कपड़ा, सिल्क सहित दो दर्जन से अधिक सामग्री के निर्यात में गिरावट आएगी। इसकी भरपाई करने के लिए बिहार के निर्यातक अब नए बाजार की तलाश में जुट गए हैं। ट्रंप टैरिफ का सबसे ज्यादा असर बिहार के मखाना पर पडेगा। देश के कुल मखाना उत्पादन का 80 फीसदी से ज्यादा बिहार में होता है।बिहार से निर्यात होने वाले मखाना का 25 फीसदी हिस्सा अमेरिका जाता है। अभी यह सालाना करीब 600 टन के करीब है।

### झारखंड : तीन माह तक अस्थिरता के बाद पटरी पर लौटेगा कारोबार

रांची, संवाददाता। टंप टैरिफ का असर झारखंड के निर्यात उद्योग को प्रभावित कर सकता है। वैसे स्थानीय उद्यमियों का मानना है कि यह लंबे समय तक असरदार नहीं होगा। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि यह स्थिति तीन माह तक अस्थिरता पैदा कर सकती है, लेकिन इसके बाद निर्यात फिर पटरी पर लौट सकता है। डीजीएफटी के आंकडों के अनुसार, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच झारखंड से अमेरिका को 870 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया। इसमें सबसे अधिक २६३ करोड़ के फेरो–अलॉय, २०४ करोड़ के बॉल या रोलर बियरिंग और 143 करोड़ के ऑटो पार्ट्स शामिल हैं।

### **PSYCHOLOGY** AT AMITY

Students have secured placements in leading organisations like:



**MAX** 

12 Fortis

Students have been selected for higher studies at top global



MONASH University

Singapore B.A./ B.Sc./ M.A. / PG DIPLOMA

**Extensive Practical Training** 

through exposure to psychological testing and assessment tools, counselling training, case study method of teaching...

Professional experience through

Learn from multiple internships in clinics, hospitals, NGOs, schools or HR departments

through an optional 5-week Study Abroad Programme in London, New York, Dubai or

Applied Psychology

**PROGRAMMES IN:** 

**Gain Global Exposure** 

- Clinical Psychology
- Counselling Psychology
- Organisational Psychology Psycho-Oncology

UG Programmes are offered in 3 year and 4 year mode

LAST DATE TO APPLY FOR UPTO 100% SCHOLARSHIP: 1ST SEPTEMBER, 2025

Internships

Amity University, Sector - 125, Noida Apply at www.amity.edu/noida | Tel: 0120-2445252 Gurugram: www.amity.edu/gurugram | Tel: 7303-399-399 Greater Noida: www.amity.edu/gn | Tel: 1800-103-3320



### हैंडीक्राफ्ट, आभूषण के निर्यात पर असर

### 🦣 उत्तराखंड

देहरादन। उत्तराखंड के कारोबारियों का 200 करोड़ से अधिक का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। राज्य से अमेरिका को जो उत्पाद सबसे अधिक भेजे जाते हैं उनमें हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफीशियल ज्वैलरी शाामिल हैं।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अनुसार राज्य के देहरादुन और हरिद्वार में करीब एक दर्जन ऐसी युनिट हैं जो हैंडीक्राफ्ट, आभूषण और इंजीनिरिंग वस्तएं अमेरिका को बेचती हैं। कारोबारी अब दूसरे बाजार तलाश कर रहे हैं लेकिन इसमें भी काफी समय लगता तय है।

### उ०प्र0 लोक सेवा आयोग

### त्तादाया ।पञ्चाया

आयोग के विज्ञापन संख्या-डी-3/ई-1/2023 दिनांक 14.06.2023 के अन्तर्गत विज्ञापित वैज्ञानिक अधिकारी (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०) के 05 डोमेनों यथा- जीव विज्ञान क्षेत्र / प्रक्षेत्र (विभाग संख्या-एस-01 / 01) कम्प्यूटर फॉरेन्सिक क्षेत्र / प्रक्षेत्र (विभाग संख्या—एस—01 / 02), भौतिक शास्त्र क्षेत्र/प्रक्षेत्र (विभाग संख्या-एस-01/03), रसायन शास्त्र क्षेत्र/प्रक्षेत्र |(विभाग संख्या–एस–01 / 04) व आचारविज्ञान क्षेत्र / प्रक्षेत्र (विभाग संख्या– एस-01/05) की स्क्रीनिंग परीक्षा में मा0 आयोग द्वारा नियत न्युनतम दक्षत प्राप्तांक प्रतिशत धारित करने वाले तथा श्रेणीवार पदों के सापेक्ष 08 गुना मेरिट (श्रेष्ठता) के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया **दिनांकः 27.08.2025** से प्रारम्भ होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथिः 10.09.2025 एवं सम्पूर्ण शैक्षिक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की **अन्तिम** तिथिः 17.09.2025 है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।

डी० पी० पाल

(उप सचिव)

**संख्या**— 84(2) / 01 / डी.आर. / एस—2 / 2023-24(टी0सी0)

दिनांकः प्रयागराज 26 अगस्त, 2025

## भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करेगा

भारत के रिफाइनर, आने वाले सप्ताहों में अपनी खरीद में कटौती करने की योजना बना रहे हैं।यह अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी से एक दिन पहले वाशिंगटन के नीतिनिर्माताओं के लिए एक मामली राहत वाली खबर है, लेकिन साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि भारत की मास्को के साथ संबंध तोड़ने की कोई योजना नहीं है।

ब्लमबर्ग की खबर के मताबिक मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित सरकारी और निजी रिफाइनर अक्टूबर और उसके बाद की लोडिंग के लिए प्रतिदिन 1.4 मिलियन से 1.6 मिलियन बैरल तेल खरीदेंगे। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं।इसकी तुलना में वर्ष की पहली छमाही में औसतन 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की खरीदारी हुई थी।

भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए उत्सुक ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर दबाव बढ़ा दिया है।इसमें बुधवार से लागू होने वाले अमेरिकी टैरिफ को दोगुना करना भी शामिल है । जानकारों का कहना है कि यदि भारत ट्रंप के साथ व्यापार समझौता कर लेता है और अमेरिका

युक्रेन के साथ रूस के युद्ध के लिए भारत पर दबाव कम कर देता है, तो स्थिति बदल सकती है। के तेल मंत्रालय, नायरा एनर्जी. सरकारी तेल शोधक कंपनियों इंडियन ऑयल कॉपेरिशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी हेत् भेजे गए ईमेल का तत्काल



फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया(पीएमबीआई) बी-500, टॉवर-बी, 5वीं मंज़िल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029 दूरभाष: 011-49431800 | वेबसाइट: pmbi.co.in

#### नियुक्ति सूचना विज्ञापन सं.: 05/2025

**फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई)**, अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-13ए पर **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(1) भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त/सांविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सेवारत अधिकारी, जो-

(क) अपने मूल मंत्रालय/विभाग/संस्थान में नियमित रूप से निम्न पद पर कार्यरत हो—

(i) समान वेतनमान, या उसके समतुल्य वेतनमान, जहाँ मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन का वेतन संरचना भिन्न हो, या उच्चतर वेतनमान हो,

(ii) ७वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर-१३ (₹ 1,23,100 – 2,15,900) या उसके समकक्ष हो।

(ख) नियुक्ति सूचना जारी होने की तिथि तक उम्मीदवार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (₹ 78,800 – 2,09,200) या उसके बराबर वेतनमान पर कम-से-कम 3 साल की नियमित सेवा पूरी की

(2) रिक्ति परिपत्र जारी होने की तिथि पर आयु 56 वर्ष से कम हो।

(३) स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता।

प्रतिनियुक्ति की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य विवरण पीएमबीआई की वेबसाइट (pmbi.co.in या https://recruitment.pmbi.co.in) पर उपलब्ध हैं।

इच्छुक - पात्र उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया के अनुसार, उचित माध्यम से अपना आवेदन **महाप्रबंधक (वित्त एवं** प्रशासन), फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) , बी-५००, टॉवर-**बी, 5वीं मंज़िल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029** को भेज सकते हैं। आवेदन की प्रति ईमेल recruitment@pmbi.co.in पर भी भेजी जा सकती है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08.10.2025

श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड (पूर्व में श्लॉस बेंगलोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

फ़ोन नंबर: +९१ (११) ३९३३१२३४ । ईमेल आईडी: cstheleela.com । सीआयएन: L55209DL2019PLC347492 । वेबसाइट: www.theleela.com

### छठी वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि छठी एजीएम की सूचना (''**एजीएम सूचना'**') में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की छठी वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार, १९ सितंबर, २०२५ को प्रात: ११:०० बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा आायेजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट

कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मई, २०२०, ०९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर, २०२४ के साथ पठित अन्य प्रासंगिक परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआईआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मई, २०२० के साथ पठित परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२४/१३३ दिनांक ३ अक्टबर, २०२४ और इस संबंध में जारी अन्य परिपत्रों (''सेबी परिपत्र'') (सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष २०२४–२५ के लिए वार्षिक रिपोर्ट (''वार्षिक रिपोर्ट वि.व. २५'') के साथ एजीएम सूचना मंगलवार, २६ अगस्त, २०२५ को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'')/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट वि.व. २५ एक्सेंस करने के लिए एक वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भी भेजा गया है जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।

एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट वि.व. २५) और अन्य संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://www.theleela.com/AGM-FY2024-25, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सूचना में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज़ cs@theleela.com. पर प्राप्त अनुरोध के आधार पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे दस्तावेज कंपनी के पंजीकत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे।

कंपनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने, बैठक में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने, बैठक से पहले ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') प्रदान करने और बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए लिंक सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कपनी की ईवीईएन प्रदर्शित होती है।

सदस्यगण एजीएम सूचना के भाग के रूप में प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग सदस्यों के लिए निम्नलिखित अवधियों के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ सोमवार, १५ सितम्बर, २०२५ प्रातः ९.०० बजे (आईएसटी) रिमोट ई-वोटिंग समापन गुरुवार, १८ सितम्बर, २०२५ सायें ५.०० बजे (आईएसटी)

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति गुरुवार, १८ सितंबर, २०२५ को सायं ५:०० बजे (आईएसटी) के बाद नहीं दी जाएगी और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट देने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं होगी। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और बैठक में उपस्थित हैं वे उसी प्रक्रिया का उपयोग करके बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम शुक्रवार, १२ सितंबर, २०२५ (''कट-ऑफ तिथि'') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची (डीमैट शेयरधारिता के मामले में) में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। वोटिंग अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के चुकता मूल्य पर की जाएगी। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है उसे एजीएम सूचना को केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए ही लेना चाहिए

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे डीमैट मोड में धारित शेयरों के संबंध में डीपीआईडी-सीएलआईडी (१६ अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या १६ अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) einward.ris@kfintech.com पर प्रदान करके इसे पंजीकृत करें और भौतिक मोड में धारित शेयरों के संबंध में फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति ई-मेल

einward.ris@kfintech.com द्वारा प्रदान करके इसे पंजीकृत करें। ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की प्रक्रिया के निर्देश जिसमें भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है वे रिमोट ई–वोटिंग या बैठक में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट कैसे

डाल सकते हैं आदि एजीएम सूचना के भाग के रूप में प्रदान किए गए हैं। एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनने वाला और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त वेबसाइट पर एजीएम से संबंधित दस्तावेज एक्सेस कर सकता है और एजीएम सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या ०२२-४८८६ ७००० पर कॉल कर सकते हैं या श्री सुकेश शेट्टी, सहायक प्रबंधक के पास <u>evoting@nsdl.co.in</u>. पर अनुरोध भेज सकते हैं।

> कृते निदेशक मंडल की ओर से श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड

ज्योति महेश्वरी

(पर्व में श्लॉस बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

कोई जवाब नहीं दिया।

महाप्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)